



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 196-2018/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 21, 2018 (KARTIKA 30, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 नवम्बर, 2018

क्रमांक 18/60/2018-3क1.- हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसिमन नियमावली, 1994 के नियम-10 के उपबन्धों के अनुसरण में तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की प्राथमिक अधिसूचना संख्या 18/60/2018-3क1, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 के सन्दर्भ में, हरियाणा के राज्यपाल, इस सम्बन्ध में सरकार की पूर्व अधिसूचना संख्या 18/60/2018-3क1, दिनांक 16 जुलाई, 2018 को निरस्त करते हुये, इसके द्वारा **नगर निगम, पानीपत, जिला पानीपत** के वार्डों के परिसीमन हेतु निम्न अनुसार प्रकाशित करते हैं:-

सीमाओं की अनुसूची

वार्ड नं० 01 :- नेशनल हाईवे-1, लुम क्राफ्ट इण्डस्ट्री से आरम्भ होकर (X:76.970752, Y:29.441001), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में नाले के साथ-2 सैक्टर रोड से होते हुए नगर निगम की सीमा के साथ-2 बरसत रोड तक (X:76.999850, Y:29.437239), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में बरसत रोड नगर निगम की सीमा के साथ-2 शराब की दुकान तक (X:76.996762, Y:29.231445), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में नगर निगम की सीमा के साथ-2 नजदीक शालिनी गैस सर्विस तक (X:76.995749, Y:29.426035), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में इस बिन्दु तक (X:76.997356, Y:29.426002), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में नगर निगम की सीमा से होते हुए इस बिन्दु तक (X:76.998710, Y:29.417393), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में देवी मन्दिर रोड मकान मालिक हरपाल पुत्र श्री हरदेव तक (X:76.993058, Y:29.417475), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में सन्नी के मकान से होते हुए मकान मालिक बाली पुत्र श्री भक्कड़ के मकान से होते हुए प्रकाशी के मकान तक (X:76.994396, Y:29.412698), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में मकान मालिक श्री ऋषि पाल पुत्र श्री रूलिया के मकान तक (X:76.993344, Y:29.412729), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में इन्द्रपाल पुत्र श्री टिकू के मकान तक (X:76.993347, Y:29.410940), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में मकान मालिक श्री तेजपाल पुत्र श्री बिरेन्द्र के मकान तक (X:76.987750, Y:29.411045), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में देवी मन्दिर रोड से होते हुए महात्मा के मकान तक (X:76.993437, Y:29.419642), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में नूर हसन के मकान से होते हुए चीमा इन्कलेव बरसत रोड तक (X:76.987612, Y:29.420845), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में बरसत रोड से होते हुए नेशनल हाईवे-1 तक (X:76.969105, Y:29.411074), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में नेशनल हाईवे-1 से होते हुए आरम्भिक बिन्दु तक (X:76.970752, Y:29.441001) ।

वार्ड नं० 02 :- अपोजिट सचदेवा गार्डन बरसत रोड से आरम्भ होकर (X:76.979863, Y:29.415699), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में बरसत रोड से होते हुए चीमा एन्क्लेव बरसत रोड तक (X:76.987612, Y:29.420845), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा से होते हुए मकान मालिक श्री नूर हसन पुत्र करम अली के मकान तक (X:76.988042, Y:29.420096), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में श्री महात्मा के मकान तक (X:76.993437, Y:29.419642), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में देवी मन्दिर रोड से होते हुए बसन्त लाल के मकान तक (X:76.987304, Y:29.410595), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में श्री ओमप्रकाश, पवन, अनिल व सुनील के मकान तक (X:76.982223, Y:29.410652), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में जगदीश के मकान तक (X:76.981885, Y:29.409812),

तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में मकान मालिक भगवान दास के मकान के पीछे तक (X:76.978798, Y:29.410786), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में आरंभिक बिन्दु अपोजिट सचदेवा गार्डन बरसत रोड तक (X:76.979863, Y:29.415699)।

वार्ड नं० 03 :- नजदीक फन सिटी मॉल नैशनल हाईवे-1 बरसत रोड से आरम्भ होकर (X:76.969105, Y:29.411074), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में अपोजिट सचदेवा गार्डन बरसत रोड तक (X:76.979863, Y:29.415699), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में दयानन्द सोनु के मकान तक (X:76.978422, Y:29.408269), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में नरेश कुमार के मकान तक (X:76.977267, Y:29.406258), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में हरकुदीन के मकान तक (X:76.975938, Y:29.406757), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में श्री राजिन्द्र कुमार के मकान तक (X:76.975453, Y:29.405249), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में तिलक राज के मकान तक (X:76.974208, Y:29.405626), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में ओम प्रकाश के मकान तक (X:76.974163, Y:29.405471), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में मकान मालिक गुलशन नजदीक रामलीला डॉमैस्टिक क्लब तक (X:76.971804, Y:29.405855), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में सुनीता मलिक के मकान तक (X:76.970765, Y:29.403024), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में नेशनल हाईवे-1 नजदीक स्काई लार्क रिजॉर्ट तक (X:76.968841, Y:29.404716), तत्पश्चात् नेशनल हाईवे-1 से होते हुए आरंभिक बिन्दु नजदीक फन सिटी मॉल नैशनल हाईवे-1 बरसत रोड तक (X:76.969105, Y:29.411074)।

वार्ड नं० 04 :- कंवर कम्प्लैक्स नाले के समीप से आरम्भ होकर (X:76.971793, Y:29.402059), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में सुनीता मलिक के मकान तक (X:76.970765, Y:29.403024), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में गुलशन के मकान नजदीक रामलीला डॉमैस्टिक क्लब तक (X:76.971804, Y:29.405855), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में ओम प्रकाश के मकान तक (X:76.974163, Y:29.405471), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में श्री तिलक राज के मकान तक (X:76.974208, Y:29.405626), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में राजिन्द्र के मकान तक (X:76.975453, Y:29.405249), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में हरकुदीन के मकान तक (X:76.975938, Y:29.406757), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में श्री नरेश कुमार के मकान तक (X:76.977267, Y:29.406258), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में दयानन्द, सोनु के मकान तक (X:76.978422, Y:29.408269), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में भावना चौक देवी मन्दिर रोड तक (X:76.979355, Y:29.404402), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में किशन सिंह के मकान तक (X:76.980307, Y:29.405036), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में रामकर्ण के मकान तक (X:76.982087, Y:29.402834), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में सतपाल के मकान तक (X:76.982438, Y:29.403029), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में तेजपाल दहिया के मकान तक (X:76.983580, Y:29.402173), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में अनिल कुमार व सुनील कुमार के मकान से होते हुए नजदीक गौरव मेडी सैन्टर नाले की पुलिया तक (X:76.980945, Y:29.396728), तत्पश्चात् नाले के साथ-2 आरंभिक बिन्दु कंवर कम्प्लैक्स नाले तक (X:76.971793, Y:29.402059)।

वार्ड नं० 05 :- भावना चौक से आरम्भ होकर (X:76.979355, Y:29.404402) तत्पश्चात् उत्तर दिशा में बैकसाईड ऑफ भगवान दास के मकान तक (X:76.978798, Y:29.410786), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में जगदीश के मकान तक (X:76.981885, Y:29.409812), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में श्री ओमप्रकाश, पवन, अनिल व सुनील के मकान तक (X:76.982223, Y:29.410652), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में देवी मन्दिर रोड से होते हुए बसन्त लाल के मकान तक (X:76.987304, Y:29.410595), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में मकान मालिक श्री तेजपाल पुत्र श्री बिरेन्द्र के मकान तक (X:76.987750, Y:29.411045), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में इन्द्रपाल पुत्र श्री टिकू के मकान तक (X:76.993347, Y:29.410940), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में मकान मालिक श्री ऋषि पाल पुत्र श्री रूलिया के मकान तक (X:76.993344, Y:29.412729), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में प्रकाशी के मकान तक (X:76.994396, Y:29.412698), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में मकान मालिक बाली पुत्र श्री फक्कड़ के मकान से होते हुए व सन्नी के मकान से होते हुए मकान मालिक हरपाल पुत्र श्री हरदेवा तक (X:76.993058, Y:29.417475), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में नगर निगम की सीमा तक (X:76.998710, Y:29.417393), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में नगर निगम की सीमा के साथ-2 कुटानी रोड नगर निगम की सीमा तक (X:77.001093, Y:29.409152), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में कुटानी रोड इस बिन्दु तक (X:76.994252, Y:29.403832), तत्पश्चात् उत्तर दिशा से होते हुए पश्चिम दिशा में मकान मालिक शेर सिंह पुत्र श्री कुडाराम के मकान तक (X:76.993037, Y:29.404534), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में राकेश पुत्र मदन लाल के मकान तक (X:76.993069, Y:29.406608), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में मकान मालिक हरिशंकर पुत्र भगवान के मकान तक (X:76.995853, Y:29.406624), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में चन्द्रमा पुत्र श्री कपूर चंद के मकान तक (X:76.991821, Y:29.405183), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में राजेश पुत्र श्री निहाल सिंह के मकान तक (X:76.991440, Y:29.405188), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में संदीप के मकान तक (X:76.991441, Y:29.405393), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में मकान मालिक दलीप कुमार पुत्र श्री इन्द्रसेन लाल के मकान तक (X:76.990104, Y:29.405409), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में मित्रपाल पुत्र श्री रतन सिंह के मकान तक (X:76.990124, Y:29.405944), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में सोनू पुत्र श्री सुरेन्द्र के मकान तक (X:76.988284, Y:29.405953), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में रामसिंह पुत्र श्री सुखबीर के मकान तक (X:76.988291, Y:29.405378), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में श्री मनोज के मकान तक (X:76.988141, Y:29.405372), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में अनिल पुत्र श्री जगदीश के मकान से होते हुए श्री तेजपाल दहिया के मकान तक (X:76.985380, Y:29.402173), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में श्री सतपाल के मकान तक (X:76.982438, Y:29.403029), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में श्री रामकर्ण के मकान तक (X:76.982087, Y:29.402834), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में श्री कृष्ण सिंह के मकान तक (X:76.980307, Y:29.405036), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में आरंभिक बिन्दु भावना चौक तक (X:76.979355, Y:29.404402)।

वार्ड नं० 06 :- अमरीस पुत्र श्री बुद्ध प्रकाश के मकान कुटानी रोड से आरम्भ होकर (X:76.989453,Y:29.399421), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में पप्पु पुत्र श्री भोपाल के मकान तक (X:76.989492,Y:29.402376), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में श्री विजय पुत्र श्री सुरज लाल के मकान तक (X:76.988819,Y:29.402395), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में श्री गुरदेस पुत्र श्री मांगे के मकान तक (X:76.988865,Y:29.403231), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में श्री प्रेम के मकान तक (X:76.988275,Y:29.403252), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में इरफान पुत्र श्री जनीर सैफी के मकान तक (X:76.988275,Y:29.403187), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में मोहम्मद अनिस पुत्र श्री जाहुद्दीन के मकान तक (X:76.987964,Y:29.403195), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में विजय यादव के मकान तक (X:76.987966,Y:29.403274), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में श्री देवेन्द्र पुत्र श्री सुरेश के मकान तक (X:76.986811,Y:29.403299), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में राज रानी पत्नी श्री राम किशन के मकान तक (X:76.986800,Y:29.403810), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में श्रीमति कृष्णा पत्नी श्री देसपाल के मकान तक (X:76.986252,Y:29.403810), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में सन्तरा के मकान तक (X:76.986255,Y:29.404100), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में श्रीमति अनिता पत्नी श्री सोनू के मकान तक (X:76.985786,Y:29.404243), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में श्री मनोज के मकान तक (X:76.988141,Y:29.405372), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में सोनू पुत्र श्री सुरेन्द्र के मकान तक (X:76.988284,Y:29.405953), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में मित्रपाल पुत्र श्री रतन सिंह के मकान तक (X:76.990124,Y:29.405944), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में मकान मालिक दलीप कुमार पुत्र श्री इन्द्रसेन लाल के मकान तक (X:76.990104,Y:29.405409), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में संदीप के मकान तक (X:76.991441,Y:29.405393), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में राजेश पुत्र श्री निहाल सिंह के मकान तक (X:76.991440,Y:29.405188), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में चन्द्रमा पुत्र श्री कपूर चंद के मकान तक (X:76.991821,Y:29.405183), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में मकान मालिक हरिशंकर पुत्र भगवान के मकान तक (X:76.995853,Y:29.406624), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में राकेश पुत्र मदन लाल के मकान तक (X:76.993069,Y:29.406608), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में मकान मालिक शेर सिंह पुत्र श्री कुड़ाराम के मकान तक (X:76.993037,Y:29.404534), तत्पश्चात् पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा में कुटानी रोड इस बिन्दु तक (X:76.994252,Y:29.403832), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में कुटानी रोड नगर निगम की सीमा तक (X:77.001091,Y:29.409152), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में नगर निगम की सीमा के साथ-2 बबैल रोड नगर निगम की सीमा तक (X:77.003946,Y:29.400255), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में बबैल रोड नगर निगम की सीमा के साथ-साथ इस बिन्दु तक (X:76.999776,Y:29.399006), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में नगर निगम की सीमा के साथ-साथ इस बिन्दु तक (X:77.000109,Y:29.396592), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में राम पुजारी के मकान तक (X:76.998608,Y:29.396617), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में देवी दयाल पुत्र माईराम के मकान तक (X:76.998667,Y:29.396949), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में सुनील पुत्र फूल सिंह के मकान तक (X:76.998223,Y:29.396957), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में राजकुमार पुत्र लख्मी चन्द के मकान तक (X:76.998223,Y:29.396747), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में तरसेम पुत्र रामपाल के मकान तक (X:76.996833,Y:29.396751), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में श्री धर्मबीर पुत्र श्री राम सिंह के मकान तक (X:76.996824,Y:29.396874), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में जगबीर पुत्र श्री वेद प्रकाश बबैल रोड के मकान तक (X:76.994172,Y:29.396446), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में मित्र मेडिकल एजेंन्सी बबैल रोड तक (X:76.991190,Y:29.394262), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में बाबू खान पुत्र श्री अब्दुल हकीम के मकान तक (X:76.990865,Y:29.396878), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में हारून पुत्र श्री हकीमू के मकान तक (X:76.991208,Y:29.396928), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में सेठपाल पुत्र श्री हुक्कम चंद के मकान तक (X:76.991017,Y:29.398813), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में आर.के. राणा के मकान तक (X:76.291365,Y:29.398804), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में विजय शर्मा पुत्र श्री हरबंस लाल के मकान तक (X:76.991363,Y:29.399435), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में आरंभिक बिन्दु अमरीस पुत्र श्री बुद्ध प्रकाश के मकान कुटानी रोड तक (X:76.989453,Y:29.399421) ।

वार्ड नं० 07 :- नजदीक गौरव मेडी सैन्टर नाले की पुलिया से आरम्भ होकर (X:76.980945, Y:29.396728), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में श्री अनिल कुमार व सुनील कुमार के मकान से होते हुए व श्री तेजपाल दहिया के मकान से होते हुए व श्री अनिल पुत्र श्री जगदीश के मकान से होते हुए श्रीमति अनिता पत्नी श्री सोनू के मकान तक (X:76.985786,Y:29.404243), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में सन्तरा के मकान तक (X:76.986255,Y:29.404100), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में श्रीमति कृष्णा पत्नी श्री देसपाल के मकान तक (X:76.986252,Y:29.403810), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में राज रानी पत्नी श्री राम किशन के मकान तक (X:76.986800,Y:29.403810), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में श्री देवेन्द्र पुत्र श्री सुरेश के मकान तक (X:76.986811,Y:29.403299), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में विजय यादव के मकान तक (X:76.987966,Y:29.403274), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में मोहम्मद अनिस पुत्र श्री जाहुद्दीन के मकान तक (X:76.987964,Y:29.403195), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में इरफान पुत्र श्री जनीर सैफी के मकान तक (X:76.988275,Y:29.403187), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में श्री प्रेम के मकान तक (X:76.988275,Y:29.403252), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में श्री गुरदेस पुत्र श्री मांगे के मकान तक (X:76.988865,Y:29.403231), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में श्री विजय पुत्र श्री सुरज लाल के मकान तक (X:76.988819,Y:29.402395), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में पप्पु पुत्र श्री भोपाल के मकान तक (X:76.989492,Y:29.402376), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में अमरीस पुत्र श्री बुद्ध प्रकाश कुटानी रोड तक (X:76.989453,Y:29.399421), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में विजय शर्मा पुत्र श्री हरबंस लाल के मकान तक (X:76.991363,Y:29.399435), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में आर.के. राणा के मकान तक (X:76.291365,Y:29.398804), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में सेठपाल पुत्र श्री हुक्कम चंद के मकान तक (X:76.991017,Y:29.398813), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में हारून पुत्र श्री हकीमू के मकान तक (X:76.991208,Y:29.396928), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में बाबू खान पुत्र श्री अब्दुल हकीम के मकान तक (X:76.990865,Y:29.396878), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में मित्र मेडिकल एजेंन्सी बबैल रोड तक

(X:76.991190,Y:29.394262), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में बबैल रोड नाले की पुलिया तक (X:76.990964,Y:29.394200), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में नाले के साथ-2 नजदीक निरवाना कुटिया की पुलिया तक (X:76.982954,Y:29.396954), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में नाले की पुलिया से होते हुए गोपाल पुत्र श्री मामचंद के मकान से होते हुए व अवध धाम मन्दिर सत्संग भवन से होते हुए व राजा राम पुत्र श्री जयराम के मकान से होते हुए व रघुबीर पुत्र श्री गिरधारी लाल के मकान से होते हुए वीर भवन चौक तक (X:76.979108,Y:29.393249), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में श्री महेश के मकान तक (X:76.979328,Y:29.393873), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में सोनू पुत्र श्री सुभाष के मकान तक (X:76.978821,Y:29.394656), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में मुजाहिद पुत्र श्री साकिर अली के मकान तक (X:76.979985,Y:29.396373), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में नाले के साथ-2 आरंभिक बिन्दु नजदीक गौरव मेडी सैन्टर नाले की पुलिया तक (X:76.980945,Y:29.396728)।

वार्ड नं० 08 :- सन्त गारमैन्ट्स सनौली रोड से आरम्भ होकर (X:76.974606,Y:29.386103), तत्पश्चात् उत्तर दिशा से होते हुए पश्चिम दिशा में गुरुद्वारा सन्त बाई नारायण सिंह जी तक (X:76.973910, Y:29.387166), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में मनचंदा वैष्णो ढाबा तक (X:76.974347,Y:29.388403), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में संत दवारा हरि मन्दिर अमर भवन रोड तक (X:76.976247,Y:29.388284), तत्पश्चात् उत्तर दिशा से होते हुए पश्चिम दिशा में जितेन्द्र पुत्र श्री ओम प्रकाश के मकान तक (X:76.976143,Y:29.388469), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में राजरानी पत्नी श्री रामकिशन के मकान से होते हुए सन्तोष रानी पत्नी श्री किशन लाल के मकान तक (X:76.975685,Y:29.389326), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में मस्जिद हाफिज साहब मौहल्ला से होते हुए मस्जिद इब्राहिम वली तक (X:76.976761,Y:29.389723), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में हनुमान मन्दिर से होते हुए नजदीक राधा कृष्ण मन्दिर तक (X:76.978329,Y:29.391565), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में मकान नं० 97/6, सुरजभान पुत्र श्री राम सिंह के मकान तक (X:76.978971,Y:29.391733), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में वीर भवन चौक तक (X:76.979175,Y:29.393216), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में रघुबीर पुत्र श्री गिरधारी लाल के मकान से होते हुए व राजा राम पुत्र श्री जयराम के मकान से होते हुए व अवध धाम मन्दिर सत्संग भवन तक (X:76.982521,Y:29.393807), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में गोपाल पुत्र श्री मामचंद के मकान से होते हुए नजदीक निरवाना कुटिया की पुलिया तक (X:76.982954,Y:29.396954), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में नाले के साथ-2 कुटानी रोड नाले की पुलिया तक (X:76.986187,Y:29.396114), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में रमेश पुत्र श्री गणेश के मकान तक (X:76.984525,Y:29.395374), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में नजदीक बुल्लेशाह पुत्र श्री लछमन के मकान तक (X:76.985275,Y:29.394619), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में मकान मालिक निजामुद्दीन पुत्र श्री मुस्तफा के मकान तक (X:76.983754,Y:29.393691), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में माता चौक बबैल रोड तक (X:76.984869,Y:29.392602), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में श्रीमति सुदेश पत्नी श्री राजेश बजाज के मकान तक (X:76.984483,Y:29.392565), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में सुरेन्द्र मनचंदा पुत्र श्री मनोहर लाल के मकान तक (X:76.983245,Y:29.390884), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में वाल्मिकी मन्दिर से होते हुए शिव मन्दिर माता चौक तक (X:76.985232,Y:29.390151), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में वृद्ध आश्रम तक (X:76.985877,Y:29.390066), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में रति राम पुत्र श्री कंवर लाल के मकान तक (X:76.985858,Y:29.389136), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में राम भवन तक (X:76.986608,Y:29.389173), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में आर.एम. आनंद हस्पताल सनौली रोड तक (X:76.986628,Y:29.388662), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में सनौली रोड से होते हुए आरंभिक बिन्दु सन्त गारमैन्ट्स सनौली रोड तक (X:76.974606,Y:29.386103)।

वार्ड नं० 09 :- नेशनल हाईवे-1 नजदीक स्काईलार्क रिजॉर्ट से आरम्भ होकर (X:76.969044, Y:29.404654), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में कंवर कम्प्लेक्स, नाले के साथ-2 मुजाहिद पुत्र श्री साकिर अली के मकान तक (X:76.979985,Y:29.396373), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में सोनू पुत्र श्री सुभाष के मकान तक (X:76.978821,Y:29.394656), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में महेश के मकान तक (X:76.979328, Y:29.393873), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में वीर भवन चौक तक (X:76.979175,Y:29.393216), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में मकान नं० 97/6, सुरजभान पुत्र श्री राम सिंह के मकान तक (X:76.978971, Y:29.391733), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में नजदीक राधा कृष्ण मन्दिर तक (X:76.978329,Y:29.391565), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में हनुमान मन्दिर से होते हुए मस्जिद इब्राहिम वली तक (X:76.976761, Y:29.389723), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में मस्जिद हाफिज साहब मौहल्ला से होते हुए सन्तोष रानी पत्नी श्री किशन लाल के मकान तक (X:76.975685,Y:29.389326), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में राजरानी पत्नी श्री रामकिशन के मकान से होते हुए जितेन्द्र पुत्र श्री ओम प्रकाश के मकान तक (X:76.976143, Y:29.388469), तत्पश्चात् पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा में संत दवारा हरि मन्दिर अमर भवन रोड तक (X:76.976247,Y:29.388284), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में मनचंदा वैष्णो ढाबा तक (X:76.974347, Y:29.388403), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में गुरुद्वारा सन्त बाई नारायण सिंह जी तक (X:76.973910, Y:29.387166), तत्पश्चात् पूर्व दिशा से होकर दक्षिण दिशा में सन्त गारमैन्ट्स सनौली रोड तक (X:76.974606,Y:29.386103), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में संजय चौक नेशनल हाईवे-1 तक (X:76.971136,Y:29.385757), तत्पश्चात् नेशनल हाईवे-1 से होते हुए आरंभिक बिन्दु नेशनल हाईवे-1 नजदीक स्काईलार्क रिसार्ट तक (X:76.969044,Y:29.404654)।

वार्ड नं० 10:- नेशनल हाईवे-1, संजय चौक सनौली रोड से आरम्भ होकर (X:76.971136,Y:29.385757), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में सनौली रोड शिव चौक से होते हुए अपेक्ष हॉस्पिटल ट्रोमा सैन्टर सनौली रोड नाले की पुलिया तक (X:76.993090,Y:29.388638), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में नाले के साथ-2 मकान मालिक नीना ग़ोवर पत्नी श्री हरिश ग़ोवर के मकान तक (X:76.980417,Y:29.380079), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में मकान मालिक हरि प्रकाश के मकान तक (X:76.979355,Y:29.379881), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में विशन चावला पुत्र श्री सेवा राम के मकान तक (X:76.979262,Y:29.380295), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में राकेश पुत्र श्री सावन राम के मकान तक

(X:76.978800,Y:29.380212), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में ईश्वर स्वं पुत्र श्री ज्ञानी राम के मकान तक (X:76.978957,Y:29.379547), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में अंकुश पुत्र श्री टिंकु सिंगल के मकान तक (X:76.978142,Y:29.379397), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में धर्मबीर पुत्र श्री राजकुमार के मकान तक (X:76.978243,Y:29.378980), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में मोती लाल चौहान पुत्र श्री नंद लाल के मकान तक (X:76.976764,Y:29.378719), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में मकान मालिक राजेश मितल स्वं पुत्र श्री सोमदत्त मितल के मकान तक (X:76.976531,Y:29.379830), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में रामेश्वर दास जैन के मकान तक (X:76.976794,Y:29.379877), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में अनुपम पुत्र श्री प्रमोद के मकान तक (X:76.976880,Y:29.380488), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में पंजाब ट्रांसपोर्ट कम्पनी नेशनल हाईवे-1 तक (X:76.973523,Y:29.379912), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में नेशनल हाईवे-1 से होते हुए आरंभिक बिन्दु नेशनल हाईवे-1, संजय चौक सनोली रोड तक (X:76.971136,Y:29.385757) ।

वार्ड नं० 11 :- आर.एम. आनंद हस्पताल सनोली रोड से आरंभ होकर (X:76.986628,Y:29.388662), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में राम भवन तक (X:76.986608,Y:29.389173), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में रति राम पुत्र श्री कंवर लाल के मकान तक (X:76.985858,Y:29.389136), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में वृद्ध आश्रम तक (X:76.985877,Y:29.390066), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में शिव मन्दिर माता चौक से होते हुए व वाल्मिकी मन्दिर से होते हुए सुरेन्द्र मनचंदा पुत्र श्री मनोहर लाल के मकान तक (X:76.983245,Y:29.390884), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में श्रीमति सुदेश पत्नी श्री राजेश बजाज के मकान तक (X:76.984483,Y:29.392565), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में माता चौक बबैल रोड तक (X:76.984869,Y:29.392602), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में मकान मालिक निजामुद्दीन पुत्र श्री मुस्तफा के मकान तक (X:76.983754,Y:29.393691), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में नजदीक बुल्लेशाह पुत्र श्री लखमन के मकान तक (X:76.985275,Y:29.394619), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में रमेश पुत्र श्री गणेश के मकान तक (X:76.984525,Y:29.395374), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में कुटानी रोड नाले की पुलिया तक (X:76.986187,Y:29.396114), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में नाले के साथ-2 बबैल रोड नाले की पुलिया तक (X:76.990964,Y:29.394200), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में जगबीर पुत्र श्री वेद प्रकाश बबैल रोड के मकान तक (X:76.994172,Y:29.396446), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में श्री धर्मबीर पुत्र श्री राम सिंह के मकान तक (X:76.996824,Y:29.396874), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में तरसेम पुत्र रामपाल के मकान तक (X:76.996833,Y:29.396751), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में राजकुमार पुत्र लख्मी चन्द के मकान तक (X:76.998223,Y:29.396747), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में सुनील पुत्र फूल सिंह के मकान तक (X:76.998223,Y:29.396957), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में देवी दयाल पुत्र माईराम के मकान तक (X:76.998667,Y:29.396949), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में राम पुजारी के मकान तक (X:76.998608,Y:29.396617), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में नगर निगम की सीमा के साथ-साथ इस बिन्दु तक (X:77.000109,Y:29.396592), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में नगर निगम की सीमा के साथ-2 इस बिन्दु तक (X:77.001156,Y:29.392901), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में पवन पुत्र श्री अमर सिंह के मकान तक (X:76.999053,Y:29.392617), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में मकान नं० 1207 लक्ष्मण के मकान तक (X:76.999043,Y:29.391533), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में राकेश पुत्र श्री राम यश के मकान तक (X:76.997985,Y:29.391574), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में इस्लाम के मकान तक (X:76.997956,Y:29.390438), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में नाले के नजदीक मितल जनरल हॉस्पिटल तक (X:76.992963,Y:29.390501), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में नाले के साथ-2 अपेक्ष हॉस्पिटल ट्रॉमा सैन्टर नाले की पुलिया पर सनोली रोड तक (X:76.992937,Y:29.388667), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में सनोली रोड से आरंभिक बिन्दु आर.एम. आनंद हस्पताल सनोली रोड तक (X:76.986628,Y:29.388662)।

वार्ड नं० 12 :- अपेक्ष हॉस्पिटल ट्रॉमा सैन्टर नाले की पुलिया पर सनोली रोड से आरंभ होकर (X:76.992937,Y:29.388667), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में नाले के नजदीक मितल जनरल हॉस्पिटल तक (X:76.992963,Y:29.390501), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में इस्लाम के मकान तक (X:76.997956,Y:29.390438), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में राकेश पुत्र श्री राम यश के मकान तक (X:76.997985,Y:29.391574), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में मकान नं० 1207 लक्ष्मण के मकान तक (X:76.999043,Y:29.391533), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में पवन पुत्र श्री अमर सिंह के मकान तक (X:76.999053,Y:29.392617), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में नगर निगम की सीमा के साथ-2 इस बिन्दु तक (X:77.001156,Y:29.392901), तत्पश्चात् पूर्व दिशा से होते हुए दक्षिण दिशा में नगर निगम की सीमा के साथ-2 ऋषिकुल विद्या निकेतन स्कूल से होते हुए इस बिन्दु तक (X:77.006950,Y:29.378171), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में नगर निगम की सीमा के साथ-2 इस बिन्दु तक (X:77.006237,Y:29.378473), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा से होकर पश्चिम दिशा में नजदीक ऐनीमल सैन्टर तक (X:77.002917,Y:29.377064), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में नजदीक पुरण चंद पुत्र श्री राम स्वरूप के मकान से ऊझा रोड गली तक (X:77.002864,Y:29.374444), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में ऊझा रोड से होते हुए इस बिन्दु तक (X:76.993323,Y:29.379869), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में चौधरी स्टील सनोली रोड तक (X:76.996624,Y:29.388105), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में आरंभिक बिन्दु अपेक्ष हॉस्पिटल ट्रॉमा सैन्टर नाले की पुलिया पर सनोली रोड तक (X:76.992937,Y:29.388667)।

वार्ड नं० 13 :- अपेक्ष हॉस्पिटल ट्रॉमा सैन्टर नाले की पुलिया पर सनोली रोड से आरंभ होकर (X:76.992937,Y:29.388667), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में चौधरी स्टील सनोली रोड तक (X:76.996624,Y:29.388105), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में ऊझा रोड इस बिन्दु तक (X:76.993323,Y:29.379869), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में ऊझा रोड से होते हुए नजदीक पुरण चंद पुत्र श्री राम स्वरूप के मकान ऊझा रोड से गली तक (X:77.002864,Y:29.374444), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में नजदीक ऐनीमल सैन्टर तक (X:77.002917,Y:29.377064), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में नगर निगम की सीमा के साथ-2 इस बिन्दु तक (X:77.006876,Y:29.376969), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में नगर निगम की सीमा के साथ-2 इस बिन्दु तक (X:77.006642,

Y:29.373215), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में नगर निगम की सीमा के साथ-2 इस बिन्दु तक (X:77.013903,Y:29.373082), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में नगर निगम की सीमा के साथ-2 इस बिन्दु तक (X:77.013785,Y:29.367101), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा नगर निगम की सीमा के साथ-2 व दक्षिण दिशा में नगर निगम सीमा रिसालू रोड तक (X:77.006106,Y:29.360670), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में फैक्टरी हैंडफैब ए लिविंग तक (X:77.001082,Y:29.358908), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में फैक्टरी हैंडफैब होम तक (X:77.001500,Y:29.359810), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में नजदीक कृष्णा लावन्स तक (X:76.991614, Y:29.363683), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में नजदीक शिव कॉम्प्लीकेशन श्रीराम मार्ग तक (X:76.991665, Y:29.368212), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में रिसालू रोड तक (X:76.992845,Y:29.368204), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में रिसालू रोड इस बिन्दु तक (X:76.991968,Y:29.369463), तत्पश्चात् उत्तर दिशा से होते हुए सैक्टर-25 रोड इस बिन्दु तक (X:76.993457, Y:29.373838), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में इस बिन्दु तक (X:76.993115,Y:29.373081), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में पुलिस स्टेशन चांदनी बाग तक (X:76.988178,Y:29.375239), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में सैक्टर रोड पर सुनील के मकान तक (X:76.98963,Y:29.380225), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में जगदीश पुत्र राम गोपाल के मकान तक (X:76.988949, Y:29.377906), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में जगदीश नागपाल पुत्र श्री जीवन दास के मकान तक (X:76.986876, Y:29.378564), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में राजेश पुत्र बन्सी लाल के मकान तक (X:76.986685,Y:29.378114), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में नाले की पुलिया तक (X:76.980816,Y:29.380645), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में नाले के साथ-2 आरंभिक बिन्दु अपेक्ष हॉस्पिटल ट्रॉमा सैन्टर नाले की पुलिया पर सनोली रोड से आरंभ होकर (X:76.992937,Y:29.388667)।

वार्ड नं० 14 :- पंजाब ट्रॉसपोर्ट कम्पनी नेशनल हाईवे-1 से आरम्भ होकर (X:76.973523,Y:29.379912), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में अनुपम पुत्र श्री प्रमोद के मकान तक (X:76.976880,Y:29.380488), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में रामेश्वर दास जैन के मकान तक (X:76.976794,Y:29.379877), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में मकान मालिक राजेश मितल र्व0 पुत्र श्री सोमदत्त मितल के मकान तक (X:76.976531,Y:29.379830), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में मोती लाल चौहान पुत्र श्री नंद लाल के मकान तक (X:76.976764,Y:29.378719), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में धर्मबीर पुत्र श्री राजकुमार के मकान तक (X:76.978243, Y:29.378980), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में अंकुश पुत्र श्री टिंकु सिंगल के मकान तक (X:76.978142,Y:29.379397), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में ईश्वर र्व0 पुत्र श्री ज्ञानी राम के मकान तक (X:76.978957,Y:29.379547), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में राकेश पुत्र श्री सावन राम के मकान तक (X:76.978800,Y:29.380212), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में विशन चावला पुत्र श्री सेवा राम के मकान तक (X:76.979262,Y:29.380295), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में मकान मालिक हरि प्रकाश के मकान तक (X:76.979355,Y:29.379881), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में मकान मालिक नीना ग़ोवर पत्नी श्री हरिश ग़ोवर के मकान तक (X:76.980417,Y:29.380079), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में नाले के साथ-2 एस.डी. विद्या मन्दिर स्कूल के पीछे नाले की पुलिया तक (X:76.978960,Y:29.377647), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में नाले के साथ-2 नजदीक एस.डी. विद्या मन्दिर स्कूल नाले की पुलिया तक (X:76.980816,Y:29.380645), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में राजेश पुत्र बन्सी लाल के मकान तक (X:76.986685,Y:29.378114), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में जगदीश नागपाल पुत्र श्री जीवन दास के मकान तक (X:76.986876,Y:29.378564), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में जगदीश पुत्र राम गोपाल के मकान तक (X:76.988949,Y:29.377906), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में सैक्टर रोड पर सुनील के मकान तक (X:76.98963,Y:29.380225), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में पुलिस स्टेशन चांदनी बाग तक (X:76.988178,Y:29.375239), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में इस बिन्दु तक (X:76.993115,Y:29.373081), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में सैक्टर-25 रोड इस बिन्दु तक (X:76.993457,Y:29.373838), तत्पश्चात् पूर्व दिशा से होते हुए दक्षिण दिशा में रिसालू रोड इस बिन्दु तक (X:76.991968,Y:29.369463), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में रिसालू रोड तक (X:76.992845,Y:29.368204), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में नजदीक शिव कॉम्प्लीकेशन श्रीराम मार्ग तक (X:76.991665,Y:29.368212), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में नजदीक कृष्णा लावन्स तक (X:76.991614,Y:29.363683), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में फैक्टरी हैंडफैब होम तक (X:77.001500,Y:29.359810), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में फैक्टरी हैंडफैब ए लिविंग तक (X:77.001082,Y:29.358908), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में नगर निगम सीमा रिसालू रोड तक (X:77.006106, Y:29.360670), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में नगर निगम की सीमा के साथ-2 चौटाला रोड नगर निगम की सीमा तक (X:77.005975,Y:29.353118), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में चौटाला रोड से होते हुए नेशनल हाईवे-1 नगर निगम की सीमा तक (X:76.983414,Y:29.341276), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में नेशनल हाईवे-1 से होते हुए आरंभिक बिन्दु पंजाब ट्रॉसपोर्ट कम्पनी नेशनल हाईवे-1 तक (X:76.973523,Y:29.379912)।

वार्ड नं० 15 :- गोहाना रोड रेलवे प्लाइओवर से आरम्भ होकर (X:76.964237,Y:29.378085), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में अपोजिट शिव धर्म कांटा से होते हुए डी.एन. हॉस्पिटल गोहाना रोड तक (X:76.970521,Y:29.380650), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में खन्ना रोड से गोहाना रोड इस बिन्दु तक (X:76.969461,Y:29.377986), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में दीपक पुत्र श्री ओम प्रकाश के मकान तक (X:76.868818,Y:29.376914), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में राधे श्याम पुत्र श्री र्व0 मुलचन्द के मकान से होते हुए व शिव मन्दिर से होते हुए हरिओम ऑटो गैस तक (X:76.972220, Y:29.376312), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में सिंगल गारमैन्ट्स तक (X:76.970870, Y:29.372009), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में नेशनल हाईवे-1 टी.वी.एस. वर्धमान ऑटो सेल्स तक (X:76.975934,Y:29.369249), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में नेशनल हाईवे-1 से होते हुए नगर निगम की सीमा तक (X:76.978518,Y:29.358366), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में नगर निगम की सीमा नजदीक नांगल खेड़ी गांव तक (X:76.974896, Y:29.358538), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में एन.एफ.एल. बाउण्डरी के साथ तक (X:76.974324, Y:29.359448),

तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में सुनील कुमार पुत्र श्री रामनारायण के मकान तक (X:76.972256,Y:29.359491), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में एन.एफ.एल. टाऊनशिप तक (X:76.971943, Y:29.362631), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में एन.एफ.एल. टाऊनशिप इस बिन्दु तक (X:76.975862, Y:29.362756), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में आई.टी.आई. कॉलेज ऑफ वॉमेन की दीवार तक (X:76.975845,Y:29.363595), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में आई.टी.आई. कॉलेज ऑफ वॉमेन की दीवार के साथ-2 इस बिन्दु तक (X:76.974562,Y:29.363567), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में आई.टी.आई. कॉलेज ऑफ वॉमेन की दीवार के साथ-2 इस बिन्दु तक (X:76.974286,Y:29.364332), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में दिल्ली-अम्बाला रेलवे लाईन तक (X:76.964784,Y:29.364255), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में दिल्ली-अम्बाला रेलवे लाईन के साथ-2 आरंभिक बिन्दु गोहाना रोड रेलवे प्लाईओवर तक (X:76.964237,Y:29.378085)।

वार्ड नं० 16 :- दिल्ली-अम्बाला रेलवे लाईन, इस बिन्दु से आरम्भ होकर (X:76.964784,Y:29.364255), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में आई.टी.आई. कॉलेज ऑफ वॉमेन की दीवार के साथ-2 इस बिन्दु तक (X:76.974286,Y:29.364332), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में आई.टी.आई. कॉलेज ऑफ वॉमेन की दीवार के साथ-2 इस बिन्दु तक (X:76.974562,Y:29.363567), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में आई.टी.आई. कॉलेज ऑफ वॉमेन की दीवार तक (X:76.975845,Y:29.363595), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में एन.एफ.एल. टाऊनशिप इस बिन्दु तक (X:76.975862,Y:29.362756), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में एन.एफ.एल. टाऊनशिप तक (X:76.971943,Y:29.362631), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में एन.एफ.एल. टाऊनशिप के साथ-2 सुनील कुमार पुत्र श्री रामनारायण के मकान तक (X:76.972256,Y:29.359491), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में एन.एफ.एल. बाउण्डरी के साथ तक (X:76.974324,Y:29.359448), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में नगर निगम की सीमा नजदीक नांगल खेड़ी गांव तक (X:76.975666,Y:29.357300), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में नगर निगम की सीमा नजदीक नांगल खेड़ी गांव तक (X:76.974918,Y:29.357293), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में नगर निगम की सीमा से होते हुए रविभान पुत्र श्री परशराम के मकान तक (X:76.973653,Y:29.351841), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में नगर निगम की सीमा के साथ-2 अम्बाला-दिल्ली रेलवे लाईन से होते हुए आरंभिक बिन्दु दिल्ली-अम्बाला रेलवे लाईन तक (X:76.964784,Y:29.364255)।

वार्ड नं० 17 :- गोहाना रोड रेलवे लाईन प्लाईओवर से आरम्भ होकर (X:76.964237,Y:29.378085), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में अम्बाला-दिल्ली रेलवे लाईन के साथ-2 नगर निगम सीमा तक (X:76.964911,Y:29.360352), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में नगर निगम की सीमा के साथ-2 गोहाना रोड नजदीक जींद-रोहतक रेलवे लाईन तक (X:76.953028,Y:29.361601), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में गोहाना रोड के साथ-2 आरंभिक बिन्दु गोहाना रोड रेलवे लाईन प्लाईओवर तक (X:76.964237,Y:29.378085)।

वार्ड नं० 18 :- अम्बाला-दिल्ली रेलवे लाईन प्लाईओवर जाटल रोड से आरम्भ होकर (X:76.964053,Y:29.383419), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में अम्बाला-दिल्ली रेलवे लाईन के साथ-2 गोहाना रोड रेलवे लाईन प्लाईओवर तक (X:76.964237,Y:29.378085), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में गोहाना रोड नगर निगम की सीमा तक (X:76.953028,Y:29.361601), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में नगर निगम की सीमा यमुना कैनाल तक (X:76.948990,Y:29.362508), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में यमुना कैनाल के साथ-2 शनि मन्दिर जाटल रोड नजदीक वैस्ट यमुना कैनाल तक (X:76.945175,Y:29.375895), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में यमुना कैनाल के साथ-2 नरेश पुत्र श्री किशाला के मकान तक (X:76.945898, Y:29.372619), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में मनोज कुमार पुत्र श्री पूरनवासी के मकान तक (X:76.946953,Y:29.373228), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में सतीश पुत्र श्री रामकिशन के मकान तक (X:76.946130,Y:29.374353), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में राकेश पुत्र श्री सुबे सिंह वैस्ट यमुना कैनाल तक (X:76.948313,Y:29.375247), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में यमुना कैनाल के साथ-2 मधुवन टैक्स प्रो प्राईवेट लि० जाटल रोड वैस्ट यमुना कैनाल पुल तक (X:76.947640,Y:29.377398), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में जाटल रोड से होते हुए आरंभिक बिन्दु अम्बाला-दिल्ली रेलवे लाईन प्लाईओवर जाटल रोड तक (X:76.964053,Y:29.383419)।

वार्ड नं० 19 :- नजदीक आर.के. रैस्टोरेन्ट नेशनल हाईवे-1 से आरम्भ होकर (X:76.968840,Y:29.391771) तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में नेशनल हाईवे-1 से होते हुए नेशनल हाईवे-1 टी.वी.एस. वर्धमान ऑटो सेल्स तक (X:76.975934,Y:29.369249), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में सिंगल गारमैन्ट्स तक (X:76.970870,Y:29.372009), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में हरिओम ऑटो गैस तक (X:76.972220,Y:29.376312), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में शिव मन्दिर से होते हुए व राधेश्याम पुत्र सर्व० श्री मुलचंद के मकान से होते हुए दीपक पुत्र श्री ओम प्रकाश के मकान तक (X:76.968818, Y:29.376914), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में खन्ना रोड से गोहाना रोड डी.एन. हॉस्टिपल तक (X:76.970521,Y:29.380650), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में अपोजिट शिव धर्म कांटा गोहाना रोड से होते हुए गोहाना रोड रेलवे प्लाईओवर तक (X:76.964237,Y:29.378085), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में दिल्ली-अम्बाला रेलवे लाईन के साथ-2 पानीपत रेलवे स्टेशन तक (X:76.963709,Y:29.390428), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में हिमालय ढाबा रेलवे रोड तक (X:76.965244,Y:29.390430), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में बलवेन्द्र पुत्र श्री अवतार के मकान तक (X:76.965153,Y:29.391279), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में रोहित कुमार पुत्र श्री रमेश के मकान तक (X:76.965825,Y:29.391325), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में अशोक पुत्र श्री हरिचंद के मकान तक (X:76.965810,Y:29.391985), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में आरंभिक बिन्दु नजदीक आर.के. रैस्टोरेन्ट नेशनल हाईवे-1 तक (X:76.968840,Y:29.391771)।

वार्ड नं० 20 :- असंध रोड प्लाईओवर अम्बाला-दिल्ली रेलवे लाईन से आरम्भ होकर (X:76.963690,Y:29.395099), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में अम्बाला-दिल्ली रेलवे लाईन के साथ-2 जाटल रोड अम्बाला-दिल्ली रेलवे लाईन प्लाईओवर तक (X:76.964053,Y:29.383419), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में जाटल रोड के साथ-2 यूनिवर्स कम्प्यूटर एंड प्रिन्टर्स जाटल रोड

तक (X:76.955874,Y:29.380477), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में मकान नं० 1 श्री केशव पंडित किरायेदार के मकान तक (X:76.954411, Y:29.383498), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में महाबीर प्रसाद पुत्र श्री चतर सेन के मकान तक (X:76.952851,Y:29.386709), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में मोहिन्द्र मलोहत्रा पुत्र श्री सीता राम मलोहत्रा के मकान तक (X:76.952149,Y:29.386516), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में संजय वधवा पुत्र श्री मदन गोपाल के मकान तक (X:76.951949,Y:29.387079), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में नजदीक दा जीम वैस्ट यमुना कैनाल पुल तक (X:76.946309,Y:29.386050), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में वैस्ट यमुना कैनाल के साथ-2 वैस्ट यमुना कैनाल पलाईओवर लिंक असंध रोड तक (X:76.944670,Y:29.393095), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में असंध रोड के साथ-2 आरंभिक बिन्दु असंध रोड पलाईओवर अम्बाला-दिल्ली रेलवे लाईन तक (X:76.963690,Y:29.395099) ।

वार्ड नं० 21:- असंध रोड यमुना कैनाल पुल नजदीक इण्डियन ऑयल पट्रोल पम्प से आरम्भ होकर (X:76.940776,Y:29.393227), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में यमुना कैनाल के साथ-2 इस बिन्दु तक (X:76.943412, Y:29.381671), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में न्यू विराट नगर फेस-3 के इस बिन्दु तक (X:76.945478,Y:29.381892), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में न्यू विराट नगर फेस-3 के इस बिन्दु तक (X:76.945553,Y:29.381440), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में न्यू विराट नगर फेस-3 वैस्ट यमुना कैनाल के साथ तक (X:76.946807,Y:29.381645), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में वैस्ट यमुना कैनाल पुल क्रोसिंग तक (X:76.945798,Y:29.385932), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में चेताराम टुटेजा के मकान से होते हुए श्री संजय वधवा पुत्र श्री मदन गोपाल के मकान तक (X:76.951949,Y:29.387089), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में श्री मोहिन्द्र मलहौत्रा पुत्र श्री सीता राम मलहौत्रा के मकान तक (X:76.952147,Y:29.386520), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में श्री महाबीर प्रसाद पुत्र श्री चतरसेन के मकान तक (X:76.952851,Y:29.386709), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में मन्जू पत्नी श्री गेरा के मकान तक (X:76.953333,Y:29.385350), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में यूनिवर्स कम्प्यूटर एंड प्रिन्टर्स जाटल रोड तक (X:76.955874,Y:29.380477), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में जाटल रोड से होते हुए मधुवन टैक्स प्रो प्राईवेट लि० जाटल रोड वैस्ट यमुना कैनाल पुल तक (X:76.947640,Y:29.377398), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में नजदीक राकेश पुत्र श्री सुबे सिंह वैस्ट यमुना कैनाल तक (X:76.948313,Y:29.375247), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में सतीश पुत्र श्री रामकिशन के मकान तक (X:76.946130,Y:29.474353), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में मनोज कुमार पुत्र श्री पूरनवासी के मकान तक (X:76.946953,Y:29.373228), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में नरेश पुत्र श्री किशाला के मकान तक (X:76.945898, Y:29.372619), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में शनि मन्दिर जाटल रोड नजदीक वैस्ट यमुना कैनाल तक (X:76.945175,Y:29.375895), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में यमुना कैनाल के साथ-2 नगर निगम की सीमा वैस्ट यमुना कैनाल तक (X:76.948990,Y:29.362508), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा से उत्तर दिशा में नगर निगम की सीमा के साथ-2 जाटल रोड नगर निगम की सीमा तक (X:76.936360,Y:29.372578), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा से उत्तर दिशा में नगर निगम की सीमा के साथ-2 इस बिन्दु तक (X:76.934741,Y:29.388683), तत्पश्चात् पूर्व दिशा से उत्तर दिशा में इमरान खान पुत्र युसुफ खान के मकान तक (X:76.936399,Y:29.393401), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में आरंभिक बिन्दु असंध रोड यमुना कैनाल पुल नजदीक इण्डियन ऑयल पट्रोल पम्प तक (X:76.940776,Y:29.393227) ।

वार्ड नं० 22 :- श्री बाला जी मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल असंध रोड से आरम्भ होकर (X:76.949977,Y:29.393379), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एंड जयपुर तक (X:76.949478,Y:29.395192), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में सरकारी वाटर ट्यूबवैल तक (X:76.949140, Y:29.395097), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में लक्ष्मण दास पुत्र रवी श्री कुन्दन लाल के मकान तक (X:76.948678,Y:29.396574), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में सुभाष पुत्र श्री गुरदीप के मकान तक (X:76.947540,Y:29.396290), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में रामकुमार पुत्र श्री प्रभुदयाल के मकान तक (X:76.947620, Y:29.396603), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में मकान नं० 759, महाबीर पुत्र श्री मन्शी किरायेदार के मकान तक (X:76.946577, Y:29.396917), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में जसवंत सिंह पुत्र श्री गुरदत सिंह के मकान तक (X:76.946150, Y:29.397004), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में दलीप कुमार पुत्र श्री बनारसी दास के मकान तक (X:76.946460,Y:29.398374), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में दलीप कुमार पुत्र श्री बनारसी दास के मकान तक (X:76.946673,Y:29.398339), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में विजय लाल पुत्र श्री राममूर्ति के मकान से होते हुए व गुलाम नबी पुत्र श्री गुलाम हुसैन के मकान से होते हुए बाला जी इन्टरनेशनल तक (X:76.948208,Y:29.401140), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में जीन्द रेलवे लाईन तक (X:76.944361,Y:29.403134), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में पानीपत-जीन्द रेलवे लाईन के साथ-2 नगर निगम की सीमा तक (X:76.925503,Y:29.399758), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में नगर निगम की सीमा के साथ-2 इस बिन्दु तक (X:76.934741,Y:29.388683), तत्पश्चात् पूर्व दिशा से उत्तर दिशा में सुभाष पुत्र श्री प्रकाश के मकान से होते हुए इमरान खान पुत्र युसुफ खान के मकान तक (X:76.936399, Y:29.393401), तत्पश्चात् पूर्व दिशा से यमुना कैनाल नजदीक इण्डियन ऑयल पट्रोल पम्प तक (X:76.940776, Y:29.393227), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में वैस्ट यमुना कैनाल इस बिन्दु तक (X:76.943412,Y:29.381671), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में न्यू विराट नगर फेस-3 तक (X:76.945471, Y:29.381892), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में न्यू विराट नगर फेस-3 तक (X:76.945553,Y:29.381440), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में यमुना कैनाल के साथ-2 न्यू विराट नगर फेस-3 वैस्ट यमुना कैनाल के साथ तक (X:76.946807,Y:29.381645), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में वैस्ट यमुना कैनाल पुल क्रोसिंग तक (X:76.945798, Y:29.385932), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में नजदीक दा जीम, वैस्ट कैनाल पुल तक (X:76.946309,Y:29.386050), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में वैस्ट यमुना कैनाल के साथ-2 नजदीक वैस्ट यमुना कैनाल पुल असंध रोड तक (X:76.944670,Y:29.393095), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में आरंभिक बिन्दु श्री बाला जी मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल असंध रोड तक (X:76.949977,Y:29.393379) ।

वार्ड नं० 23 :- श्री बाला जी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल असंध रोड से आरम्भ होकर (X:76.949977,Y:29.393379), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में असन्ध रोड के साथ-2 राम लाल चौक से होते हुए असंध रोड फ्लाईओवर अम्बाला-दिल्ली रेलवे लाईन तक (X:76.963690,Y:29.395099), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में दिल्ली-अम्बाला रेलवे लाइन के साथ-2 व जींद रेलवे लाइन के साथ-2 काबड़ी फाटक तक (X:76.951464,Y:29.405485), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में जींद रेलवे लाइन के साथ-2 इस बिन्दु तक (X:76.944361,Y:29.403134), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में बाला जी इन्टरनैशनल तक (X:76.948208, Y:29.401140), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में गुलामनबी पुत्र गुलाम हुसैन के मकान से होते हुए व विजय लाल पुत्र श्री राममूर्ति के मकान से होते हुए दलीप कुमार पुत्र श्री बनारसी दास के मकान तक (X:76.946673, Y:29.398339), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में दलीप कुमार पुत्र श्री बनारसी दास के मकान तक (X:76.946460,Y:29.398374), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में जसवंत सिंह पुत्र श्री गुरदत्त सिंह के मकान तक (X:76.946150,Y:29.397004), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में मकान नं० 759, महाबीर पुत्र श्री मन्शी किरायेदार के मकान से होते हुए रामकुमार पुत्र श्री प्रभुदयाल के मकान तक (X:76.947620,Y:29.396603), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में सुभाष पुत्र श्री गुरदीप के मकान तक (X:76.947540,Y:29.396290), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में श्री जसवन्त लाल पुत्र श्री प्रभु दयाल के मकान से होते हुए लक्ष्मण दास पुत्र सर्व० श्री कुन्दन लाल के मकान तक (X:76.948678,Y:29.396574), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में सरकारी वाटर ट्यूबवैल तक (X:76.949140,Y:29.395097), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एंड जयपुर तक (X:76.949478,Y:29.395192), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में आरंभिक बिन्दु श्री बाला जी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल असंध रोड तक (X:76.949977,Y:29.393379)।

वार्ड नं० 24 :- काबड़ी फाटक जीन्द रेलवे लाईन से आरम्भ होकर (X:76.949929,Y:29.405328), तत्पश्चात् उत्तर दिशा से पश्चिम दिशा में श्री मांगे राम पब्लिक स्कूल तक (X:76.949929,Y:29.405328), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में जे.आर.के. वूलन मील के कोने तक (X:76.946543,Y:29.407352), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में श्याम आवर्सिज के पीछे तक (X:76.947344, Y:29.407672), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में एम.डी. पब्लिक स्कूल कार्नर तक (X:76.946504,Y:29.408857), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में एम.डी. पब्लिक स्कूल तक (X:76.946975,Y:29.409124), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में श्री अरविन्द पुत्र श्री मेघनाथ के मकान से होते हुए विजय पाल के मकान तक (X:76.943353,Y:29.4014192), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में बिजेन्द्र पुत्र श्री मेहर सिंह के मकान तक (X:76.942181,Y:29.403310), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में बीरमति पत्नी श्री सुभाष के मकान तक (X:76.942737, Y:29.417563), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में वर्मा होटल काबड़ी रोड तक (X:76.944485, Y:29.417549), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में काबड़ी रोड से होते हुए नगर निगम की सीमा काबड़ी रोड तक (X:76.940000, Y:29.424062), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में नगर निगम की सीमा के साथ-2 वैस्ट यमुना कैनाल नगर निगम की सीमा तक (X:76.933555, Y:29.417039), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में नगर निगम की सीमा के साथ-2 पानीपत-जीन्द रेलवे लाईन नगर निगम सीमा तक (X:76.925503,Y:29.399758), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में जीन्द रेलवे लाईन के साथ-2 आरंभिक बिन्दु काबड़ी फाटक जीन्द रेलवे लाईन तक (X:76.949929,Y:29.405328)।

वार्ड नं० 25 :- काबड़ी फाटक जीन्द रेलवे लाईन से आरम्भ होकर (X:76.949929,Y:29.405328), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में पानीपत जीन्द रेलवे लाईन के साथ-2 दिल्ली-अम्बाला रेलवे लाईन तक (X:76.963484,Y:29.399981), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में अम्बाला-दिल्ली रेलवे लाईन के साथ-2 अलीशेर पुत्र श्री बाबीरउल्ला के मकान तक (X:76.962973,Y:29.407196), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में रिलायन्स टॉवर से होते हुए शिव पाल पुत्र श्री राम नाथ के मकान तक (X:76.954737, Y:29.413093), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री हरफूल के मकान तक (X:76.953710,Y:29.411950), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में अनिल पुत्र सर्व० श्री आत्मा राम के मकान तक (X:76.953288,Y:29.412257), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में दिनेश पुत्र श्री राम देव के मकान तक (X:76.953091,Y:29.412031), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में टिकू पुत्र श्री मोजी राम के मकान तक (X:76.953413,Y:29.411413), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में राजेश पुत्र श्री राम देव के मकान तक (X:76.952142,Y:29.410980), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में बिमला वर्मा पत्नी श्री चिरजीव के मकान तक (X:76.952276, Y:29.410564), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में सतबीर पुत्र श्री लथुरी के मकान तक (X:76.951860,Y:29.410373), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में विसपाल पुत्र श्री गोरी शंकर के मकान तक (X:76.9952095,Y:29.409926), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में मोहम्मद अफजल पुत्र श्री जहिर के मकान तक (X:76.951474,Y:29.409676), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में नाले से होते हुए जोगिन्द्र पुत्र श्री मदन के मकान तक (X:76.949372,Y:29.409412), तत्पश्चात् उत्तर दिशा में काबड़ी रोड से होते हुए वर्मा होटल काबड़ी रोड तक (X:76.944485,Y:29.417549), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में बीरमति पत्नी श्री सुभाष के मकान तक (X:76.942737,Y:29.417563), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में बिजेन्द्र पुत्र श्री मेहर सिंह के मकान तक (X:76.942181, Y:29.403310), तत्पश्चात् पूर्व दिशा में विजय पाल के मकान तक (X:76.943353,Y:29.4014192), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में अरविन्द पुत्र श्री मेघनाथ के मकान से होते हुए एम.डी. पब्लिक स्कूल तक (X:76.946975,Y:29.409124), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में एम.डी. पब्लिक स्कूल कार्नर तक (X:76.946504,Y:29.408857), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में श्याम आवर्सिज के पीछे तक (X:76.947344,Y:29.407672), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में कार्नर ऑफ जे.आर.के. वूलन मील तक (X:76.946543, Y:29.47352), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में श्री मांगे राम पब्लिक स्कूल तक (X:76.949929,Y:29.405328), तत्पश्चात् पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा में आरंभिक बिन्दु काबड़ी फाटक जीन्द रेलवे लाईन तक (X:76.949929,Y:29.405328)।

वार्ड नं० 26:- सागर ढाबा नैशनल हाईवे-1, नगर निगम सीमा से आरम्भ होकर (X:76.970962, Y:29.457344), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में नैशनल हाईवे-1 टोल प्लाजा से होते हुए नैशनल हाईवे-1 के साथ-2 नजदीक आर.के. रैस्टोरेन्ट नैशनल हाईवे-1 तक (X:76.968840,Y:29.391771), तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में अशोक पुत्र श्री हरिचन्द के मकान तक (X:76.965810,Y:29.391985), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में रोहित कुमार पुत्र श्री रमेश के मकान तक (X:76.965825,